

Corliss PS

3730 CORLISS CRES
MISSISSAUGA
L4T2Z4

स्ट्रीट पर पार्किंग संबंधी प्लानर



Corliss Public School



ट्रैफिक सिग्नल



सड़क पर साइकलिंग का रूट



सड़क से नीचे रास्ता या पगडंडी



5 मिनट का पैदल रास्ता या 2 मिनट रोल



10 मिनट का पैदल रास्ता या 4 मिनट रोल



स्कूल क्रॉसिंग गार्ड



स्कूल पैदल जाने के रूट



पार्किंग पाबंदियां लागू हैं



स्ट्रीट पर पार्किंग की अनुमति है




स्कूल स्ट्रीट्स बंद होना

ध्यान दें: इस नक्शे का प्रयोग, आपकी पार्किंग की योजना बनाने में मदद के लिए किया जाना चाहिए। यदि नक्शा पोस्ट किए गए बाइ-लॉज के मुताबिक नहीं है, तो कृपया टिकट प्राप्त होने से बचने के लिए, पोस्ट किए गए बाइ-लॉज का पालन करें।

पिछली बार अपडेट किया: गर्मी 2025



Produced by Geospatial Solutions
School Streets Program



Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Inc. and its affiliates, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri



School Streets Pilot Project

Let's Walk and Roll to School!

पैदल या रोल करके स्कूल क्यों जाना चाहिए?

यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है!

- सक्रिय रहने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।
- सक्रिय रूप से स्कूल आने-जाने से स्कूल में चुस्ती और एकाग्रता बढ़ती है।

यह मजेदार है!

- सक्रिय रूप से स्कूल आना-जाना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का शानदार तरीका है।
- यातायात का सक्रिय साधन प्रयोग करना, ट्रैफिक में फंसे रहने के मुकाबले कहीं अधिक मजेदार हो सकता है!

यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा नजदीक हो सकता है!

- कई बच्चे लगभग 15 मिनटों या इससे भी कम समय में 1 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। बाइक से इससे लगभग आधा समय लगता है।

यह वयस्कों के लिए अच्छा है!

- हर कदम, जो आप चलते हैं, शारीरिक गतिविधि में हर सप्ताह 150 मिनट जोड़ता है, जिसकी वयस्कों के लिए सिफारिश की जाती है।

पैदल चलने और रोलिंग के लिए सुरक्षा संबंधी सुझाव

आपके घर से स्कूल तक के रास्ते की योजना बनाएं और अपने बच्चे के साथ उस रूट पर आने-जाने का अभ्यास करें।

- उन पगडंडियों वाले रूट या रास्ते चुनें, जहां आप पैदल चल सकें या रोल कर सकें, आपकी कम्युनिटी में निशान लगाए हुए स्कूल पैदल जाने के रूटों सहित।
- एमरजेंसी की स्थिति के लिए, क्रॉसिंग गार्ड्स, पैदल सड़क पार करने के स्थानों, लैंडमार्कों, सुरक्षा संबंधी खतरों के बोर्डों और दोस्तों के घरों का ध्यान रखें।
- उन दोस्तों को मिलकर उनके साथ पैदल जाने की योजना बनाएं, जो स्कूल के आपके रूट की तरफ रहते हैं, या एक पैदल चलने का ग्रुप शुरू करें।

आपका आने-जाने का जो भी साधन हो, हमेशा सड़क के नियमों का पालन करें:

- सभी ट्रैफिक सिग्नलों/साइन बोर्डों और पगडंडी के साइन बोर्डों का पालन करें।
- कभी भी पार्क किए गए या रुके हुए वाहनों के बीच में पार न करें।
- ड्राइववेज को पार करते समय ज्यादा सावधानी बरतें।

तब क्या करना चाहिए, अगर आप स्कूल से इतनी दूर रहते हों, जहां से पैदल चलकर या रोल करके आना-जाना मुश्किल हो?

- यदि आपका बच्चा स्कूल बस लेता है, तो बस स्टॉप तक अपने वाहन पर आने की बजाय पैदल जाने की कोशिश करें।
- यदि आपका बच्चा स्कूल बस नहीं लेता है, तो वाहन को स्कूल से 5 या 10 मिनट दूर पार्क करने की कोशिश करें, और बाकी रास्ते पैदल चलकर या रोल करके आएँ। आप ट्रैफिक से बचेंगे और थोड़ा व्यायाम भी हो जाएगा!

स्कूल जाने के लिए सक्रिय रूट की योजना बनाने के लिए आपके पड़ोस के लिए बनाया गया नक्शा प्रयोग करें!

